

## कीट रेपेलेंट का प्रयोग करने के लिए टिप्स

1. लेबल पर दिए गए निर्देशों तथा सावधानियों के अनुसार शरीर के खुले भागों पर डीट युक्त कीट रेपेलेंट का प्रयोग करें तथा कपड़े पहनें।
2. 6 माह से कम आयु के नवजात शिशुओं पर डीट युक्त कीट रेपेलेंट का प्रयोग करने से बचें। रोगवाहक कीटों के काटने तथा डंक मारने से रोकने के लिए वैकल्पिक उपायों का प्रयोग करें।
3. जब डीट युक्त कीट रेपेलेंट का प्रयोग बच्चों में करना है:
  - डीट की कम सांद्रता -10% तक का प्रयोग करें
  - बच्चों को स्वयं कीट रेपेलेंट को हैंडल करने या लगाने न दें। वयस्कों को कीट रेपेलेंट को अपने खुद के हाथों पर लगाना चाहिए और फिर इसे बच्चों पर लगाना चाहिए
  - युवा बच्चों के हाथों, आंखों तथा मुंह के आस-पास, अथवा फटी हुई या खारिश वाली त्वचा पर न लगाएं
  - कीट रेपेलेंट को उनकी आंखों में न जाने दें
  - लगाने की तैयारी में स्प्रे करना वरीय है
  - खुले क्षेत्रों में रेपेलेंट स्प्रे करें तथा बच्चों को उसमें सांस न लेने दें

- रेपेलेंट को बच्चों की पहुंच से दूर रखें तथा बच्चों को उन्हें निगलने न दें
  - त्वचा पर लगाना सीमित करें तथा कपड़ों के लिए इसको फिर से लगाएं
  - बच्चों के इनडोर से वापस आने के बाद, उनकी उपचार की गयी त्वचा को पानी से धोएं अथवा उन्हें स्नान कराएं
  - कीट रेपेलेंट के संपर्क में आए कपड़ों को साबुन और पानी से धोएं; तथा
  - उपचर्या करने वाली माताओं को अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने से पहले अपने रेपेलेंट के हाथों और शरीर को धोने के लिए सलाह दें
4. डीट युक्त कीट रेपेलेंट का प्रयोग करने वाली गर्भवती महिलाओं की सलाह के लिए, कृपया [परिवार स्वास्थ्य सेवा की वेबसाइट](#) की विजिट करें।
  5. डीट युक्त कीट रेपेलेंट का प्रयोग करना उस समय हानिकारक नहीं होता है जब लेबल की दिशाओं का अनुसरण किया जाता है तथा उत्पाद प्रयोग के लिए सुरक्षित है। दुर्लभ मामलों में, डीट उत्पादों के प्रयोग से त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं। उच्च सांद्रता वाली डीट का प्रयोग करने वाले कुछ व्यक्तियों या जो डीट की अत्याधिक मात्रा के संपर्क में आए उन्हें त्वचा पर चकत्ते, फफोले, तथा त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली पर जलन अनुभव हुई।
  6. डीट के अलावा, कीट रेपेलेंट के अन्य सक्रिय घटकों के साथ भी, जैसे IR3535, आइकारिडीन (पिकारिडीन के रूप में भी ज्ञात), इत्यादि बाजार में उपलब्ध है। कोई

कीट रेपेलेट का प्रयोग करते समय, जनता के सभी सदस्यों को लेबल पर दिए गए निर्देशों तथा सावधानियों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

30 अगस्त 2016  
30 August 2016